



**ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE
24, AKBAR ROAD, NEW DELHI
COMMUNICATION DEPARTMENT**

Highlights of Media Bite

14 October, 2020

Shri Pawan Khera, Spokesperson, AICC addressed media at AICC Hdqrs, today

श्री पवन खेड़ा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि अभी दो घंटे पहले हमने आपके सामने आंकड़े रखे एनसीआरबी के उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई घटनाएं जो महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उनकी। इन्हीं दो घंटों में उसी हाथरस में एक पांच साल की बच्ची का एक और हादसा सामने आया है। ये पीड़ा भी देता है, गुस्सा भी है लोगों के मन में कि आखिर क्या कारण है, प्रशासन का भय समाप्त हो गया है अपराधियों के मन से। अगर उसी जिले में, उसी जगह पर जहाँ इतना बड़ा हादसा हुआ हो, जिससे पूरा देश हतप्रभ रह गया हो, वहाँ एक और ऐसा हादसा वो भी पांच साल की बच्ची के साथ बलात्कार की एक और घिनौनी वारदात। इससे यह साबित हो रहा है कि पिछले तीन सालों में इस सरकार ने एक ऐसा माहौल बना दिया है जिससे अपराधी आश्वस्त हैं कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। ऐसे में आम नागरिक का जीवन उत्तर प्रदेश में भय का जीवन है, भयभीत हैं वो लोग, सरकार से उनका विश्वास उठ चुका है, सरकार की नीयत पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका है। क्यों नहीं डरता अपराधी आज उत्तर प्रदेश में? क्यों एक के बाद एक आंकड़े आ रहे हैं, लगातार हादसे हो रहे हैं, गोंडा का हादसा मैंने आपको बताया, जहाँ ऐसिड का हमला हुआ तीन लड़कियों पर। हाथरस का हम लगातार रोज इस बारे में चर्चा कर ही रहे हैं अभी हाथरस में एक और हादसा हो जाए ऐसा और सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार की पोल तो आप सबके सामने बार-बार खुल ही जाती है, केन्द्र सरकार इस विषय में क्या कर रही है, हम ये भी जानना चाहते हैं।

क्या केन्द्र सरकार, गृह मंत्रालय, उनकी आँखें, इनके कान बंद हैं, इन्हें नहीं दिखाई दे रहा, इन्हें नहीं सुनाई दे रहा, वहाँ चीत्कार वहाँ महिलाओं की चीख नहीं सुनाई दे रही है इनको? इसका भय उत्तर प्रदेश शासन को दुरुस्त कर पाएगा? क्या उत्तर प्रदेश राज्य सरकार केन्द्र में बैठे अपने बाँसेस से भी कोई डर नहीं है उनको। ये एक चेन है, निडरता की एक चेन है। किसी को किसी का डर नहीं है, क्योंकि अपराधियों पर वरदहस्त है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का और उत्तर प्रदेश के शासन का, रूलिंग पार्टी का। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, तुरंत केन्द्र सरकार को एक सख्त, कठोर कदम उठाकर एक संदेश देना होगा अपराध जगत में और इस सरकार को बरखास्त करना चाहिए ताकि अपराधियों के मन में भय व्याप्त हो कि उनके ऊपर अब किसी का हाथ नहीं है। जब तक वो भय अपराधियों के मन पर नहीं आएगा, तब तक उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं सुधरेगी।

धन्यवाद।

Shri Pawan Khara said- There is an atmosphere of fear in UP. Just two hours ago, we gave you some NRCB data of 2019, in which every category of crime against women, UP was raking above all other states. Within these two hours you see another episode of rape in the same Hathras district. We ask, after all where do these criminals drive their confidence from? Why are they so assured that there is a political blessing for them in UP.

People have stopped trusting this Government, which is worse. Well, it's, we know, we have witnessed crimes in different states, but, this is an unprecedented situation, where people have lost confidence not just in the ability of the Government, but, also in the intentions of the Government. People no longer feel secure under the Government of Adityanath Ji in UP.

What is the Centre doing? What is the Minister of Home Affairs doing, we want to know. Their eyes, their ears are closed to the crimes, which we get to know every day, in fact, more than one crime every day, so many crimes against women, women getting raped, girls, small children getting raped, acid attacks. We told you about attacks on temple priests.

A strong message needs to go to the criminals in UP that there will no longer be political blessing on them and that message can only go, if the Government of UP is dismissed immediately, otherwise UP is making headlines for all the wrong reasons, people do not feel safe there at all, especially women do not feels safe there at all.

Thank you.

Sd/-
(Dr. Vineet Punia)
Secretary
Communication Deptt,
AICC